

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 1972/माघ 8, 1893
No. 53] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 1972/MAGHA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January 1972

S.O. 70(E).—In exercise of the powers conferred by section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1972.

2. **Amendment of rule 90.**—In rule 90 of the Conduct of Elections Rules, 1961, for the existing table, the following table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Name of State or Union territory	Maximum limit of election expenses in any one of	
	Parliamentary Constituency	Assembly Constituency
1	2	3
	Rs.	Rs.
I. States		
1. Andhra Pradesh.	35,000	10,500
2. Assam.	35,000	9,000

I	2	3
3. Bihar.	35,000	12,000
4. Gujarat.	35,000	10,500
5. Haryana.	35,000	9,000
6. Himachal Pradesh.	35,000	5,000
7. Jammu and Kashmir.	25,000	..
8. Kerala.	35,000	10,500
9. Madhya Pradesh.	35,000	10,000
10. Maharashtra.	35,000	12,000
11. Manipur.	17,500	2,500
12. Meghalaya.	17,500	2,500
13. Mysore.	35,000	10,000
14. Nagaland.	15,000	2,500
15. Orissa.	35,000	10,500
16. Punjab.	35,000	10,000
17. Rajasthan.	35,000	10,000
18. Tamil Nadu.	35,000	12,000
19. Tripura.	17,500	2,500
20. Uttar Pradesh.	35,000	13,500
21. West Bengal.	35,000	10,500
II. Union Territories		
1. Andaman and Nicobar Islands.	12,500	..
2. Chandigarh.	10,000	..
3. Dadra and Nagar Haveli.	6,600	..
4. Delhi.	10,000	..
5. Goa, Daman and Diu.	12,500	3,000
6. Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands.	12,500	..
7. Mizoram.	12,500	2,500
8. Pondicherry.	12,500	3,000."

[F. No. 7(2)/72-Leg.II]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि और न्याय संचालन**(विधायी विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1972

का० क्र० 70 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—इन नियमों का नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. नियम 90 का प्रशोधन--निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 90 में विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

सारणी

राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम	किसी एक में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा	
	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	सभा निर्वाचन क्षेत्र
1	2	3
I. राज्य	रु०	रु०
1. आंध्र प्रदेश	35,000	10,500
2. असम	35,000	9,000
3. बिहार	35,000	12,000
4. गुजरात	35,000	10,500
5. हरियाणा	35,000	9,000
6. हिमाचल प्रदेश	35,000	5,000
7. जम्मू-कश्मीर	25,000	..
8. केरल	35,000	10,500
9. मध्य प्रदेश	35,000	10,500
10. महाराष्ट्र	35,000	12,000
11. मणिपुर	17,500	2,500
12. मेघालय	17,500	2,500
13. मैसूर	35,000	10,000
14. नागालैंड	15,000	2,500
15. उड़ीसा	35,000	10,500
16. पंजाब	35,000	10,000
17. राजस्थान	35,000	10,000
18. तमिल नाडु	35,000	12,000
19. त्रिपुरा	17,500	2,500
20. उत्तर प्रदेश	35,000	13,500
21. पश्चिमी बंगाल	35,000	10,500

1	2	3
II. संघ राज्यक्षेत्र		
1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	12,500	..
2. चंडीगढ़	10,000	..
3. दादरा और नाग हवेली	6,000	..
4. दिल्ली	10,000	..
5. गोवा, दमण और दीव	12,500	3,000
6. लक्कादीव मिनिकाय और अमिन्दीवी द्वीपसमूह	12,500	..
7. मिजोराम	12,500	2,500
8. पांडिचेरी	12,500	3,000 ¹

[सं० फा० 7 (2)/72-वि० II]

एन० डी० पी० नम्बर्दिगिपाद, संयुक्त सचिव ।